

# Gen

## Chapter 30

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַתֹּאמֶר और-कहा H0559	בְּאֶחָתָהּ अपनी-बहन-से H0269	רָחֵל राहेल-को H7354	וַתִּקְנֶא और-जलन-हुई H7065	לְיַעֲקֹב याकोब-के-लिए H3290	יְלֵדָהּ जनी-थी H3205	לֹא नहीं H3808	כִּי कि	רָחֵל राहेल-ने H7354	וַתִּרְא और-देखा H7200	1	
			אֲנֹכִי मैं H0595	מָתָה मरी-हुई H4191	אִין नहीं H0369	וְאִם और-अगर	בְּנִים बच्चे	לִי मुझे-को	הָבָה दे H3051	יַעֲקֹב याकोब H3290	אֵל को H0413

राहेल ने देखा कि वह याकोब के लिए किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। राहेल अपनी बहन लिआ से ईर्ष्या करने लगी। इसलिए राहेल ने याकोब से कहा, "मुझे बच्चो दो, वरना मैं मर जाऊँगी।"

תִּזְנֶה तुझ-से H4513	מָנַע रोका H0595	אֲשֶׁר- जिस-ने	אֲנֹכִי मैं H0595	אֱלֹהִים एलोहीम-की H0430	הַתַּחַת क्या-जगह-में H8478	וַיֹּאמֶר और-कहा H0559	בְּרַחֵל राहेल-पर H7354	יַעֲקֹב याकोब-का H3290	אָף क्रोध H0639	וַיַּחַר- और-भड़का H2734	2
									בְּטֶן गर्भ-का H0990	פְּרִי फल H6529	

याकोब राहेल पर क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, "मैं परमेश्वर नहीं हूँ। वह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें बच्चों को जन्म देने से रोका है।"

גַּם- भी H1571	וְאֲבִנָּהּ और-बनूँगी H1129	בְּרָכִי मेरे-घुटनों H1290	עַל- पर	וַתֵּלֶד और-जने H3205	אֵלֶיהָ उस-के-पास H0413	בָּא जा H0935	בְּלִהָה बिलहा H0519	אֲמָתִי मेरी-दासी H2009	הִנֵּה देख H0559	וַתֹּאמֶר और-कहा H0559	3
									מִמְנָה उस-से H0595	אֲנֹכִי मैं	

तब राहेल ने कहा, "तुम मेरी दासी बिलहा को ले सकते हो। उसके साथ सोओ और वह मेरे लिए बच्चे को जन्म देगी। तब मैं उसके द्वारा माँ बनूँगी।"

יַעֲקֹב याकोब H3290	אֵלֶיהָ उस-के-पास H0413	וַיָּבֵא और-गया H0935	לְאִשָּׁה पत्नी-के-लिए H0802	שֶׁפְחָתָהּ अपनी-दासी H8198	בְּלִהָה बिलहा H0853	אֶת- को	לֹו उस-को	וַתִּתֵּן- और-दिया H5414	4
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------	--------------	--------------------------------	---

इस प्रकार राहेल ने अपने पति याकोब के लिए बिलहा को दिया। याकोब ने बिलहा के साथ शारीरिक सम्बन्ध किया।

בֵּן बेटा	לְיַעֲקֹב याकोब-के-लिए H3290	וַתֵּלֶד और-जनी H3205	בְּלִהָה बिलहा	וַתִּהְיֶה और-गर्भवती-हुई H2029	5
--------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------	---

बिलहा गर्भवती हुई और याकोब के लिए एक पुत्र को जन्म दिया।

בֵּן बेटा	לִי मुझे-को H5414	וַיִּתֵּן- और-दिया H5414	בְּקוֹלִי मेरी-आवाज़ H8085	שָׁמַע सुना H1571	וְגַם और-भी H0430	אֱלֹהִים एलोहीम-ने H1777	דָּנַי न्याय-किया-मेरा H7354	רָחֵל राहेल-ने H0559	וַתֹּאמֶר और-कहा H0559	6	
						דָּן दान H1835	שְׁמוֹ उस-का-नाम H8034	כִּן पुकारा H7121	עַל- इस H7121	פָּר पर	

राहेल ने कहा, "परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने मुझे एक पुत्र देने का निश्चय किया।" इसलिए राहेल ने इस पुत्र का नाम दान रखा।

7  
 וַתָּרָר וְעוֹר וַתִּלְדֵּךְ אֵת בִּלְהָה בַּלְהָה שְׁפָתָהּ בֶּן שְׁנֵי לְיַעֲקֹב:  
 और-गर्भवती-हुई फिर और-जनी और-जनी बिलहा दासी राहेल-की बेटा दूसरा याकोब-के-लिए  
[H3205](#) [H5750](#) [H2029](#) [H3205](#) [H8198](#) [H7354](#) [H8145](#) [H3290](#)

बिल्हा दूसरी बार गर्भवती हुई और उसने याकूब को दूसरा पुत्र दिया।

8  
 וַתֹּאמֶר וְרַחֵל וַתִּשְׁתַּחֲוֶינָהּ וְאֵלְהִים וְנָפְתוּלַי רַחֵל וְרָחֵל וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-कहा और-कहा राहेल-ने राहेल-ने कुशितियां एलोहीम-की कुशती-की-मैंने साथ अपनी-बहन-के भी जीती और-पुकारा  
[H7121](#) [H3201](#) [H1571](#) [H0269](#) [H6617](#) [H0430](#) [H5319](#) [H7354](#) [H0559](#)  
 וְשָׂמוּ שְׁמוֹ וְשָׂמוּ  
 उस-का-नाम नप्ताली  
[H5321](#) [H8034](#)

राहेल ने कहा, “अपनी बहन से मुकाबले के लिए मैंने कठिन लड़ाई लड़ी है और मैंने विजय पा ली है।” इसलिए उसने इस पुत्र का नाम नप्ताली रखा।

9  
 וַתִּרְאֵהוּ וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-देखा और-देखा लेआ-ने रुकी-थी एमरु-से जनने-से और-लिया और-लिया को ज़िल्या अपनी-दासी और-दिया उस-को  
[H0853](#) [H5414](#) [H8198](#) [H2153](#) [H0853](#) [H3947](#) [H3205](#) [H5975](#) [H3812](#) [H7200](#)  
 וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 याकोब-के-लिए पत्नी-के-लिए  
[H0802](#) [H3290](#)

लिआ ने सोचा कि वह और अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए उसने अपनी दासी जिल्या को याकूब के लिए दिया।

10  
 וַתִּלְדֵּךְ וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-जनी याकोब-के-लिए लेआ-की दासी ज़िल्या-ने बेटा  
[H3290](#) [H3812](#) [H8198](#) [H2153](#) [H3205](#)

तब जिल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया।

11  
 וַתֹּאמֶר וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-कहा और-कहा लेआ-ने सौभाग्य-में आया गद और-पुकारा को उस-का-नाम गद  
[H1410](#) [H8034](#) [H0853](#) [H7121](#) [H1409](#) [H0935](#) [H1409](#) [H3812](#) [H0559](#)

लिआ ने कहा, “मैं भाग्यवती हूँ। अब स्त्रियाँ मुझे भाग्यवती कहेंगी।” इसलिए उसने पुत्र का नाम गद रखा।

12  
 וַתִּלְדֵּךְ וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-जनी याकोब-के-लिए दूसरा लेआ-की दासी ज़िल्या-ने बेटा  
[H3290](#) [H8145](#) [H3812](#) [H8198](#) [H2153](#) [H3205](#)

जिल्या ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया।

13  
 וַתֹּאמֶר וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-कहा और-कहा लेआ-ने मेरे-सौभाग्य-में कि धन्य-कहेंगी-मुझे बेटियां और-पुकारा को उस-का-नाम आशेर  
[H0836](#) [H8034](#) [H0853](#) [H7121](#) [H1323](#) [H0833](#) [H0837](#) [H3812](#) [H0559](#)

लिआ ने कहा, “मैं बहुत प्रसन्न हूँ।” इसलिए उसने लड़के का नाम आशेर रखा।

14  
 וַיִּלְדֵּךְ וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 और-गया और-गया रऊबेन और-गया बीमि-में कटाई की-गेहूं और-पाया दूदाइम खेत-में और-लाया और-को के-पास  
[H0413](#) [H0853](#) [H0935](#) [H1736](#) [H4672](#) [H2406](#) [H3117](#) [H7205](#) [H3212](#)  
 וְיָכֹלֵתִי וְיָכֹלֵתִי  
 लेआ अपनी-माता को राहेल-ने और-कहा लेआ  
[H1736](#) [H4994](#) [H5414](#) [H3812](#) [H0413](#) [H7354](#) [H0559](#) [H0517](#) [H3812](#)

गेहूँ कटने के समय रूबेन खेतों में गया और कुछ विशेष फूलों को देखा। रूबेन इन फूलों को अपनी माँ लिआ के पास लाया। लेकिन राहेल ने लिआ से कहा, “कृपाकर अपने पुत्र के फूलों में से कुछ मुझे दे दो।”

15 וַתֹּאמֶר לָהּ הַמַּעַט קַחְתְּךָ אֵת אִשְׁי וּלְקַחַת נָם אֶת הַיִּדְאִי בְנִי  
 और-कहा उस-से कम-है क्या-तेरा लेना-तेरा मेरे-पति को भी और-लेना मेरे-बेटे-के दूदाइम को

וַתֹּאמֶר רָחֵל לְכֹן יִשְׁכַּב עִמָּךְ הַלַּיְלָה תַּחַת הַיִּדְאִי בְנִי:  
 और-कहा राहेल-ने इसलिए लेटेगा तेरे-साथ आज-रात बदले-में दूदाइम-के तेरे-बेटे-के

लिआ ने उत्तर दिया, “तुमने तो मेरे पति को पहले ही ले लिया है। अब तुम मेरे पुत्र के फूलों को भी ले लेना चाहती हो।” लेकिन राहेल ने उत्तर दिया, “यदि तुम अपने पुत्र के फूल मुझे दोगी तो तुम आज रात याकूब के साथ सो सकती हो।”

16 וַיָּבֵא יַעֲקֹב מִן־הַשָּׂדֶה בְּעֶרְבַּ וַתֵּצֵא לָאָה לְקַרְאָתוֹ וַתֹּאמֶר אֵלָיו תָּבוֹא  
 और-आया याकोब से खेत को शाम-को और-निकली लेआ मिलने-उस-से और-कहा मेरे-पास आ

כִּי שָׁכַר שְׂכָרְתִּיךָ בְּדוּדְאִי בְנִי וַיִּשְׁכַּב עִמָּה בַּלַּיְלָה הַזֶּה:  
 क्योंकि किराये-पर किराये-पर-लिया-तुझे-मैंने दूदाइम-से मेरे-बेटे-के और-लेटा और-साथ उस-के-साथ उस-को रात-को

उस रात याकूब खेतों से लौटा। लिआ ने उसे देखा और उससे मिलने गई। उसने कहा, “आज रात तुम मेरे साथ सोओगे। मैंने अपने पुत्र के फूलों को तुम्हारी कीमत के रूप में दिया है।” इसलिए याकूब उस रात लिआ के साथ सोया।

17 וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶל־לָאָה וַתִּהְיֶה וַתִּהְרָה וַתֵּלֶד בֵּן לְיַעֲקֹב בֵּן חַמִּישִׁי:  
 और-सुना एलोहीम-ने को लेआ और-गर्भवती-हुई और-जनी और-जन्म-दिया पाँचवां बेटा याकोब-के-लिए

तब परमेश्वर ने लिआ को फिर गर्भवती होने दिया। उसने पाँचवें पुत्र को जन्म दिया।

18 וַתֹּאמֶר לָאָה נָתַן אֱלֹהִים שְׂכָרִי אֲשֶׁר־נָתַתִּי שְׂפָחָתִי לְאִשְׁי וַתִּקְרָא  
 और-कहा लेआ-ने दिया एलोहीम-ने मेरा-प्रतिफल जो जो अपनी-दासी अपने-पति-को और-पुकारा

שְׁמוֹ יִשְׁשַׁכָּר:  
 उस-का-नाम इस्साकार

लिआ ने कहा, “परमेश्वर ने मुझे इस बात का पुरस्कार दिया है कि मैंने अपनी दासी को अपने पति को दिया।” इसलिए लिआ ने अपने पुत्र का नाम इस्साकार रखा।

19 וַתִּהְרָה וַתֵּלֶד בֵּן לְיַעֲקֹב בֵּן שְׁשִׁי:  
 और-गर्भवती-हुई और-जन्म-दिया और-जनी और-जन्म-दिया और-जन्म-दिया और-जन्म-दिया

लिआ फिर गर्भवती हुई और उसने छठे पुत्र को जन्म दिया।

20 וַתֹּאמֶר לָאָה זָבְרָנִי וְאֱלֹהִים אָתִי זָבַד טוֹב הַפְּעַם אִשְׁי כִּי־  
 और-कहा लेआ-ने दिया-मुझे एलोहीम-ने मुझ-को उपहार अच्छा मेरा-पति क्योंकि

יָלְדָתִי וְלָו שְׁשָׁה בָנִים אֶת־וַתִּקְרָא אֶת־זָבְלוֹן:  
 जनी-मैंने उस-के-लिए छः बच्चे और-पुकारा को उस-का-नाम ज़बूलून

लिआ ने कहा, “परमेश्वर ने मुझे एक सुन्दर भेंट दी है। अब निश्चय ही याकूब मुझे अपनाएगा, क्योंकि मैंने उसे छः बच्चे दिए हैं।” इसलिए लिआ ने पुत्र का नाम ज़बूलून रखा।

21 וַאֲחֶר יַלְדָה בַּת וַתִּקְרָא אֶת־בֵּת וַיִּהְיֶה וַיִּהְיֶה וַיִּהְיֶה  
 और-बाद-में जनी और-बाद-में और-पुकारा को और-पुकारा और-पुकारा और-पुकारा

इसके बाद लिआ ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसने पुत्रों का नाम दीना रखा।



29 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר עֲבַדְתִּי וְאֵת אֲשֶׁר-וָאֵת אֲשֶׁר-הָיָה מִקִּדְּמָה 29  
 और-कहा उस-से तू जानता-है को जैसे सेवा-की-तेरी-मैंने और जैसा रहा तेरा-पशुधन  
[H0559](#) [H0413](#) [H3045](#) [H0853](#) [H5647](#) [H0853](#) [H1961](#) [H4735](#)

אָתִי :  
 मेरे-साथ  
[H0854](#)

याकूब ने उत्तर दिया, “तुम जानते हो, कि मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम किया है। तुम्हारी रेवड़े बड़ी हैं और जब तक मैंने उनकी देखभाल की है, ठीक रही है।

30 כִּי מַעַט תּוֹדָה אֲשֶׁר-הָיָה לְךָ לְפָנָי וַיִּפְרָץ לְרֹב וַיְבָרֶךְ יְהוָה 30  
 क्योंकि थोड़ा था जो तेरे-पास मेरे-पहले तेरे-पास और-बढ़ा और-आशीर्वाद-दिया यहोवा-ने  
[H0853](#) [H4592](#) [H1961](#) [H6440](#) [H6555](#) [H7230](#) [H1288](#) [H3068](#)

אֶתְּךָ אֶתְּךָ לְרֹנְלֵי וְעַתָּה מִתִּי אֲעֲשֶׂה נִם-אֲנִי לְבִיתִי :  
 तुझ-को मेरे-कदमों-पर और-अब कब करूंगा भी मैं अपने-घर-के-लिए  
[H0853](#) [H7272](#) [H6258](#) [H4970](#) [H1571](#) [H0595](#)

जब मैं आया था, तुम्हारे पास थोड़ी सी थीं। अब तुम्हारे पास बहुत अधिक हैं। हर बार जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है यहोवा ने तुम पर कृपा की है। अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं अपने लिए काम करूँ, यह मेरे लिए अपना घर बनाने का समय है।”

31 וַיֹּאמֶר מָה אֶתְּךָ-לָּךְ לָא-תִתֶּן-לִי מֵאֹמָה וְאִם-תַּעֲשֶׂה- 31  
 और-कहा क्या दूँ तुझ-को और-कहा याकोब-ने नहीं देगा कुछ-भी अगर करेगा  
[H0559](#) [H5414](#) [H4100](#) [H3290](#) [H3808](#) [H5414](#) [H3972](#) [H5414](#)

לִי הַתְּבָרָה אֲשֶׁר-בָּהּ אֲשַׁמְרָה :  
 मेरे-लिए बात यह लौटूंगा चराऊंगा तेरी-भेड़ रखूंगा  
[H0853](#) [H1697](#) [H2088](#) [H7725](#) [H6629](#) [H8104](#)

लाबान ने पूछा, “तब मैं तुम्हें क्या दूँ?” याकूब ने उत्तर दिया, “मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो। मैं केवल चाहता हूँ कि तुम जो मैंने काम किया है उसकी कीमत चुका दो। केवल यही एक काम करो। मैं लौटूँगा और तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करूँगा।

32 אֲעֲבֹר בְּכָל-צֹאנֶיךָ הַיּוֹם הַזֶּה מִשָּׁם כָּל-אִשָּׁה נָקָד וְטָלוֹא וְכָל-שָׂה 32  
 जाऊँगा-मैं सब-में तेरी-भेड़ आज हटा वहाँ-से सब भेड़ और-सब और-धब्बेदार चित्तीदार और-सब भेड़  
[H0559](#) [H3605](#) [H6629](#) [H3117](#) [H5493](#) [H8033](#) [H3605](#) [H7716](#) [H5348](#) [H3605](#)

חֹמֶם בְּכֶשֶׂתִים וְטָלוֹא וְנָקָד בְּעֵינַיִם וְהָיָה שְׂכָרִי :  
 भूरी मेमनों-में और-धब्बेदार और-चित्तीदार और-चिट्ठी मेरी-मजदूरी और-होगा बकरियों-में  
[H2345](#) [H3775](#) [H2921](#) [H5348](#) [H5795](#) [H1961](#) [H7939](#)

मुझे अपनी सभी रेवड़ों के बीच से जाने दो और दागदार और धारीदार हर एक मेमने को मुझे ले लेने दो और काली नई बकरी को ले लेने दी हर एक दागदार और धारीदार बकरी को ले लेने दो। यही मेरा वेतन होगा।

33 וְעִנְתָּהּ-בִּי צִדְקָתִי בְּיוֹם מַחֲרָר כִּי-תָבוֹא עָלַי שְׂכָרִי לְפָנָי כָּל 33  
 और-गवाही-देगी मेरे-लिए मेरी-धार्मिकता मेरी-धर्मिकता कल दिन-में जब आएगा पर तेरे-सामने मेरी-मजदूरी सब  
[H0559](#) [H6666](#) [H3117](#) [H4279](#) [H0935](#) [H7939](#) [H6440](#) [H3605](#)

אֲשֶׁר-אֵינְנוּ נָקָד וְטָלוֹא בְּעֵינַיִם וְחֹמֶם בְּכֶשֶׂתִים וְגֹב חֹמֶם הוּא אָתִי :  
 जो नहीं-है चित्तीदार और-धब्बेदार और-धब्बेदार और-भूरी और-भूरी मेमनों-में चोरी-हुआ वह मेरे-साथ  
[H0369](#) [H5348](#) [H2921](#) [H5795](#) [H2345](#) [H1589](#) [H1931](#) [H0854](#)

भविष्य में तुम सरलता से देख लोग कि मैं ईमानदार हूँ। तुम मेरी रेवड़ों को देखने आ सकते हो। यदि कोई बकरी दागदार नहीं होगी या कोई भेड़ काली नहीं होगी तो तुम जान लोगे कि मैंने उसे चुराया है।”

34 וַיֹּאמֶר לָבָן הֲלוֹ לָךְ הִיא כִּי-בָרַךְ :  
 और-कहा लाबान-ने देख काश हो तेरे-वचन-के-अनुसार  
[H0559](#) [H2005](#) [H3863](#) [H1961](#) [H1697](#)

लाबान ने उत्तर दिया, “मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हम तुमको जो कुछ मागोगे देंगे।”



41  
 לְעֵינַי אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי הַמְקַלֹּת לַאֲתָת יַעֲקֹב וְשֵׁם וְהַמְקַשְׁרוֹת הַצֹּאן יַחֲם יְחָם-בְּכָל-וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי  
 आँखों-के-सामने लाठियाँ को याकोब और-रखता बलवान भेड़ें गर्मतीं जब-सब और-हुआ  
[H4731](#) [H0853](#) [H3290](#) [H7194](#) [H6629](#) [H3179](#) [H3605](#) [H1961](#)

הַצֹּאן בְּרֵהָטִים לְיַחֲמָנָה לְיַחֲמָנָה בְּמַקְלוֹת: לַאֲתָת יַעֲקֹב וְשֵׁם וְהַמְקַשְׁרוֹת הַצֹּאן יַחֲם יְחָם-בְּכָל-וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי  
 भेड़ों-के नालियों-में गमनि-के-लिए-उन-को नालियों-में भेड़ों-के  
[H4731](#) [H3179](#) [H6629](#)

जब कभी रेवड़ में स्वस्थ जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे तब याकूब उनकी आँखों के सामने शाखाएँ रख देता था, उन शाखाओं के करीब ही ये जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे।

42  
 וּבְהַעֲטִיף וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי לְיַעֲקֹב: וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי לְיַעֲקֹב: וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי לְיַעֲקֹב: וְהָיָה אֲרָחוֹת-כֶּם-סָאמְנֵי לְיַעֲקֹב:  
 और-कमज़ोर-होते और-हुए और-रखता-था नहीं भेड़ें और-कमज़ोर-होते  
[H3290](#) [H7194](#) [H1961](#) [H3808](#) [H6629](#)

लेकिन जब कमजोर जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे। तो याकूब वहाँ शाखाएँ नहीं रखता था। इस प्रकार कमजोर जानवरों से पैदा बच्चे लाबान के थे। स्वस्थ जानवरों से पैदा बच्चे याकूब के थे।

43  
 וַיִּפְרֹץ  
 और-बढ़ा और-बहुत  
[H1581](#) [H5650](#) [H8198](#) [H6629](#) [H1961](#) [H3966](#) [H3966](#) [H0376](#) [H6555](#)

וַיִּפְרֹץ  
 और-गधे  
[H2543](#)

इस प्रकार याकूब बहुत धनी हो गया। उसके पास बड़ी रेवड़ें, बहुत से नौकर, ऊँट और गधे थे।